

C. S. (Main) Exam : 2011

Serial No.

C-DTN-L-MBB

**LAW**  
**Paper—II**

*Time Allowed : Three Hours*

*Maximum Marks : 300*

**INSTRUCTIONS**

*Each question is printed both in Hindi and in English.*

*Answers must be written in the medium specified in the Admission Certificate issued to you, which must be stated clearly on the cover of the answer-book in the space provided for the purpose. No marks will be given for the answers written in a medium other than that specified in the Admission Certificate.*

*Candidates should attempt Question Nos. 1 and 5 which are compulsory, and any three of the remaining questions selecting at least one question from each Section.*

*All questions carry equal marks.*

---

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है।

## SECTION—A

1. Answer the following. (answer to each part must not exceed 150 words). Support your answer with legal provisions and case law. 15×4=60
  - (a) “The Indian Penal Code gives protection to one who does an act in good faith for the benefit of another.” Discuss.
  - (b) “The Indian Penal Code extends protection to acts done by misfortune under certain circumstances.” Discuss.
  - (c) “Tort is concerned with the allocation on prevention of losses which are bound to occur in society.” Discuss.
  - (d) “Before a person can recover for loss which he suffered from another person’s act, it must be shown that his case falls within the class of actionable wrongs.” Discuss.
2. (a) “Merely doing certain acts that would bring the Government established by law into hatred or contempt is not the decisive ingredient of Sedition.” Discuss. Also state the view of Law Commission of India about reforms on this provision. 30

खंड—क

1. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। (प्रत्येक भाग का उत्तर 150 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए)। अपने उत्तर को विधिक उपबंधों और निर्णयजन्य विधि के द्वारा पुष्ट कीजिए।

15×4=60

- (क) "भारतीय दंड संहिता ऐसे व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करती है, जो किसी अन्य के फायदे के लिए सद्भाव में कोई कार्य करता है।" चर्चा कीजिये।
- (ख) "भारतीय दंड संहिता किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अधीन दुर्भाग्य से किए गए कार्यों के लिए संरक्षण का विस्तार करती है।" चर्चा कीजिए।
- (ग) "अपकृत्य का सरोकार, समाज में जिन हानियों का घटित होना निश्चित है, उनके आबंटन या उनके निवारण से है।" चर्चा कीजिए।
- (घ) "किसी अन्य व्यक्ति के कार्य के द्वारा हुई हानि की वसूली कर सकने से पहले यह दर्शाना आवश्यक होगा कि उस व्यक्ति का मामला वादयोग्य दोषों के वर्ग में पड़ता है।" चर्चा कीजिए।
2. (क) "केवल किन्हीं ऐसे कार्यों का करना जो विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा कर दें, राजद्रोह के लिए विनिश्चयात्मक संघटक नहीं है।" चर्चा कीजिए। साथ ही इस उपबंध पर सुधारों से संबंधित भारतीय विधि आयोग के विचार का कथन कीजिए।

30

- (b) 'A', with the intention of bringing "Hashish", a prohibited drug in India, stealthily brought in his bag a cover believing that it contains "hashish" while coming from Bangladesh to India. While trying to sell the same to 'B' a dispute regarding its price arose. B grudgingly informed the police who opened the bag. It was found that it was a harmless snuff powder and not hashish. Discuss the liability of A. 30
3. (a) "It would be wrong to perceive nudity and sex as essentially obscene, indecent or immoral. Sex and obscenity are not always synonymous." In the light of the above statement elaborate the position of obscenity as an offence in India. 30
- (b) An army Jawan X who was away from his home for the last two years, requested his senior Y for leave, which Y refused. Annoyed at this, X fired two shots at Y, one shot hitting Y beneath the knee of the right leg as a result of which he fell down. X fired another shot which hit Y at the upper left arm. Y died after ten days. Discuss the liability of X. 30

(ख) भारत में प्रतिषिद्ध नशीली दवा 'हशीश' को लाने के आशय से, A बांग्लादेश से भारत आते समय अपने बैग में चोरी-छिपे एक लिफाफा ले कर आता है, यह विश्वास करते हुए कि उस लिफाफे के अंदर हशीश है। उस वस्तु को B को बेचने की कोशिश के समय उसकी कीमत के संबंध में एक विवाद पैदा हो गया। B ने अनिच्छा से पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने बैग खोल लिया। पाया गया कि वस्तु एक अहानिकर नसवार चूर्ण थी, न कि हशीश। A के दायित्व पर चर्चा कीजिए। 30

3. (क) "नग्नता और सैक्स को आवश्यक रूप से अश्लील, अशिष्ट या अनैतिक समझ लेना ग़लत होगा। सैक्स और अश्लीलता सदैव पर्यायवाची नहीं होते हैं।" उपरोक्त कथन के प्रकाश में भारत में अपराध के रूप में अश्लीलता की स्थिति को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। 30

(ख) एक थलसेना जवान X ने, जो पिछले दो वर्षों से अपने घर से दूर था, अपने वरिष्ठ Y से छुट्टी मांगी, जिसको Y ने इन्कार कर दिया। इस पर नाराज़ होकर, X ने Y पर दो गोलियां दागी। एक गोली Y की दाईं टांग के घुटने के नीचे लगी, जिसके परिणामस्वरूप वह नीचे गिर पड़ा। X ने एक और गोली चलाई जो Y के बाएं बाजू के ऊपरी भाग पर लगी। दस दिन के बाद Y की मृत्यु हो गई। X की देयता पर चर्चा कीजिए। 30

4. (a) "The defendant must not only owe the plaintiff a duty of care, he must be in breach of it." In the light of the above statement examine as to how would the court find out as to whether there is a breach of a duty on the part of the defendant or not. Refer to case law. 30
- (b) "With the enactment and implementation of the Consumer Protection Act, 1986, a new consumer jurisprudence has developed in India." Elaborate. 30

#### SECTION—B

5. Answer the following. (Answer to each part must not exceed 150 words). Support your answer with legal provisions and decided cases :— 15×4=60
- (a) "Standard form contracts exist in complete disregard to the established principles of freedom of contract and equality of bargaining power of the parties." Elucidate.
- (b) "There can be no contract of guarantee unless there is someone primarily liable." Comment.

4: (क) "प्रतिवादी के लिए वादी के प्रति न केवल देखभाल के कर्तव्य का होना आवश्यक होता है, बल्कि आवश्यक होता है कि उसने उसका भंग किया हो।" उपरोक्त कथन के प्रकाश में, परीक्षण कीजिए कि न्यायालय कैसे मालूम करेगा कि क्या प्रतिवादी की तरफ से कर्तव्य का भंग किया गया है अथवा नहीं। निर्णयजन्य विधि का हवाला दीजिए। 30

(ख) "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की अधिनियमिति एवं क्रियान्वयन के साथ, भारत में एक नए उपभोक्ता विधि-शास्त्र का विकास हुआ है।" विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। 30

#### खंड—ख

5. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। (प्रत्येक भाग का उत्तर 150 शब्दों से अधिक में नहीं होना चाहिए)। अपने उत्तर को विधिक उपबंधों और निर्णयजन्य विधि के द्वारा पुष्ट कीजिए :—

15×4=60

(क) "मानक फार्म संविदाएं, संविदा स्वातंत्र्य और पक्षकारों की सौदेबाजी शक्ति की समता के स्थापित सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना में, विद्यमान है।" विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।

(ख) "जब तक कोई प्राथमिकतः दायी न हो, तब तक गारंटी का कोई संविदा नहीं हो सकता है।" टिप्पणी कीजिए।

- (c) "The great element of negotiability is the acquisition of property by your own conduct, not by another's, that if you take it bonafide and for value nobody can deprive you of it." Explain.
- (d) "Lok-Adalats in India manifest the purpose and objectives laid down in Alternate Dispute Resolution Schemes." Discuss.
6. (a) "Ratification is a kind of affirmation of unauthorised acts." Critically examine. Is there any difference between 'agency by estoppel' and 'agency by ratification' ? Discuss. 30
- (b) A Central Government Medical Research Institute in collaboration with an MNC used a drug on experimental basis on humans for curing cancer. Some of the patients died due to this drug. In order to sue for compensation for such victims and violation of right to privacy, Mr. X, a relative of a deceased patient sought information through the instrumentality of Right to Information Act. The information was refused on the ground that it affects the contracting power of the Central Government with foreign companies and violates trade secrets too. Decide. 30



- (ग) "परक्राम्यता का महान तत्व संपत्ति का अपने स्वयं के आचरण के द्वारा अर्जन है, न कि किसी अन्य के आचरण के द्वारा, अर्थात् यदि आप उसको सद्भावपूर्ण और मूल्यार्थ प्राप्त करते हैं, तो कोई भी आपको उससे वंचित नहीं कर सकता।" स्पष्ट कीजिए।
- (घ) "भारत में लोक-अदालतें 'वैकल्पिक विवाद समाधान योजनाओं' में अधिकथित प्रयोजन और उद्देश्यों को दर्शाती हैं।" चर्चा कीजिए।
6. (क) "अनुसमर्थन अप्राधिकृत कार्यों का एक प्रकार का प्रतिज्ञान है।" समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। क्या 'विबंध के द्वारा अभिकरण' और 'अनुसमर्थन के द्वारा अभिकरण' के बीच कोई अन्तर होता है ? चर्चा कीजिए। 30
- (ख) एक केंद्रीय सरकार चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के सहयोग में, कैंसर का इलाज करने की एक दवा का मानवों पर प्रायोगिक आधार पर इस्तेमाल किया। उस दवा के कारण कुछ रोगियों की मृत्यु हो गई। ऐसे पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए और निजता के अधिकार के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर करने की दृष्टि से, एक रोगी के रिश्तेदार श्री X ने सूचना के अधिकार के हथियार के माध्यम से जानकारी मांगी। सूचना प्रदान करने से इन्कार कर दिया गया जिसका आधार बताया गया कि सूचना प्रदान विदेशी कंपनियों के साथ केंद्रीय सरकार की संविदाकरण शक्ति को प्रभावित करता है और व्यापार रहस्यों का भी उल्लंघन करता है। विनिश्चय कीजिए। 30

7. (a) "Competition Law needs to have necessary provisions and teeth to examine and adjudicate upon anti-competitive practices." Examine and evaluate this statement in the context of the Competition Act, 2002. 30
- (b) "The rise of Environmental Crimes in spite of Environmental Legislations is due to absence of adequate punitive methods of sentencing." Discuss. 30
8. (a) "Passing of property and delivery of goods are two different concepts." Explain with the help of provisions of The Sale of Goods Act and case law. 30
- (b) What is securing of digital signature under the Information Technology Act, 2000 ? State the duty of disclosure of the Certifying Authority. 30

7. (क) "यह आवश्यक है कि प्रतियोगिता विधि में प्रतियोगितारोधी व्यवहारों का परीक्षण करने और न्यायनिर्णयन करने के लिए आवश्यक उपबंध और धार मौजूद हों।" प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण और मूल्यांकन कीजिए। 30
- (ख) "पर्यावरणीय विधानों के बावजूद, पर्यावरणीय अपराधों के उत्थान का कारण दंडादेश करने की पर्याप्त दंडात्मक विधियों की अनुपस्थिति है।" चर्चा कीजिए। 30
8. (क) "संपत्ति का संक्रांत करना और माल का परिदान करना, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं।" माल विक्रय अधिनियम के उपबंधों और निर्णयजन्य विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 30
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन अंकीय हस्ताक्षर का सुनिश्चित करना क्या होता है ? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की प्रकटन की ड्यूटी का कथन कीजिए। 30

Serial No.

C-DTN-L-MBB

विधि

प्रश्न-पत्र—II

समय : तीन घण्टे

पूर्णांक : 300

अनुदेश

प्रत्येक प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपा है। प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तक के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य हैं। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खण्ड से कम-से-कम एक प्रश्न चुनकर किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

---

*Note : English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.*